



SOUTHERN INFOCONSULTANTS LIMITED

(Formerly known as Southern Infosys Limited)

CIN: L67120DL1994PLC059994

Registered Office Address: 402A, Arunachal Building, 19 Barakhamba Road, New Delhi-110001, India

Phone: +91-11-23354236, 43045402 E-mail: rmsfcs@gmail.com

Website: www.southerninfoconsultants.com

Date: 30.05.2025

To,
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange
PJ Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400001

BSE Code: 540174

Subject: Copy of Audited Financial Results for the Fourth quarter and Year ended 31st March, 2025 published in the Newspaper.

Dear Sir,

In compliance with the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed copies of Audited financial results for the Fourth Quarter and Year ended 31st March, 2025 as published in the “**The Financial Express**” (English Newspaper) and “**Jansatta**” (Hindi Newspaper) on 30th May, 2025.

Kindly take same on your record.

Please take the same on your record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Southern Infoconsultants Limited

(formerly known as Southern Infosys Limited)



(Kriti Bareja)

Company secretary and Compliance officer

M. No.: A51320



केनरा बैंक
कनरा बैंक ऑफ इंडिया
A Government of India Undertaking

**Regional Office-
Civil Lines, Moradabad**

POSSESSION NOTICE
Under Section 13 (2) Under Rule 8(1) of
Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas

The undersigned being the Authorised officer of the CANARA BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued deemed notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrower/guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CANARA BANK, for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset. Details of property where possession had been taken is as follows:


Sr. No.	Name of the Borrower/ Guarantor & Branch Name	Description of the Immovable Property	Outstanding Amount	Date of Demand Notice
				Date of Possession
1	SHIVA AYURVEDIC AGENCY (Borrower) Branch: SME Kutchery Road, Moradabad	All that part and parcel of the property consisting of The Property at Khasra no.2287,2302 Area 140.00 Sqmt. Situated at Lakdi Fazolepur Uttari Moradabad East: Plot Vendor, West: Plot Vijay, North: Plot Chander Pal, South: Rasta 12 ft wide	Rs. 42,26,968.16 + int. & other charges	05.01.2019 28.05.2025

Dated: 29.05.2025

Place: Moradabad

Authorized Officer, Canara Bank

MANBRO INDUSTRIES LIMITED CIN: L47211DL1992PLC048444 Regd. Office: B-99, Ground Floor, Shop No.- 1, New Moti Nagar, New Delhi 110015 Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com, Website: www.unimodeoverseas.in					
Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2025 (Rs. In Million)					
Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24
	Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
1 Total income from operations (net)	8.94	1.06	240.06	29.58	240.06
2 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	8.27	0.23	2.76	6.07	2.76
3 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	8.27	0.23	2.76	6.07	2.76
4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	8.28	0.23	2.36	6.08	2.36
5 Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	8.28	0.23	2.36	6.08	2.36
6 Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/- each)	58.01	58.01	5.01	58.01	5.01
7 Other Equity	-	-	-3.49	-	-3.49
8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operation)					
Basic:	1.43	0.04	4.71	1.05	4.71
Diluted:	0.82	0.04	4.71	1.05	4.71
Note: 1 The above results after being reviewed by the Audit Committee have been taken on record by the Board at its Meeting held on 29th May 2025. 2 The previous periods figures have been regrouped and reclassified where ever necessary. 3 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e, www.bseindia.com and Companies Website i.e, www.unimodeoverseas.in					
Place: New Delhi Date: 29.05.2025			By order of the Board For MANBRO INDUSTRIES LIMITED Sd/- Dilip Kumar Goenka (Managing Director) DIN: 02057814		

BIHAR SPONGE IRON LIMITED						
CIN: L27106JH1982PL C001633						
Registered Office: Umesh Nagar , Chandil, District - Sarakela Kharsawan, Jharkhand-832401.						
PH. +91 9955542302 E-Mail : companysecretary@bsil.org.in, Website : www.bsil.org.in						
EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025						
Sr. No.	Particulars	Quarter ended			(Rs. In Lacs)	
		31st March, 2025	31st December, 2024	31st March, 2024	31st March, 2025	31st March, 2024
		(Audited)	(Un-audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	10687.08	5,913.08	8061.37	34932.25	29216.67
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	335.79	188.97	449.34	1039.43	744.47
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	335.79	188.97	449.34	1039.43	744.47
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	335.79	188.97	449.34	1039.43	744.47
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	336.06	188.97	449.34	1039.70	744.47
6	Equity Share Capital	9,020.54	9,020.54	9,020.54	9,020.54	9,020.54
7	Reserves (excluding Reevaluation Reserve)				(17,561.96)	(18,708.62)
	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)					
a	Basic (in Rs.)	0.37	0.21	0.50	1.15	0.83
b	Diluted (in Rs.)	0.37	0.21	0.50	1.15	0.83
NOTES:						
The above Audited financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meetings held on 29th May, 2025.						
The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2025, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2025 is available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.bsil.org.in .						
The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2025, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2025 is available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.bsil.org.in .						
The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment Rules), 2016.						
				For Bihar Sponge Iron Limited		
				Sd/		
				Umesh Kumar Modi Chairman & President		
Place : New Delhi				DIN : 0002757		
Date : 29th May 2025						

PRADYUMNA STEELS LIMITED CIN : L27109DL1972PLC319974 Regd. Office: Flat No.702, 7th Floor, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Phone: 011-23310001 (5 Lines), E-mail : hcsindl@yahoo.co.in						
Extract of Audited Standalone Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March 2025 (Rs. in lakhs except per share data)						
Sl No.	Particulars	STANDALONE				
		Quarter Ended			Year Ended	
		March 31, 2025	Dec. 31, 2024	Mar 31, 2024	Mar, 31, 2025	Mar, 31, 2024
		(Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total income from operations	37.40	6.58	42.32	73.26	63.67
2.	Net Profit/(Loss) for the period/year (before tax and Exceptional items)	3.14	1.53	10.25	5.72	15.80
3.	Net Profit/(Loss) for the period/year before tax (after Exceptional items)	3.14	1.53	10.25	5.72	15.80
4.	Net Profit/(Loss) for the period/year after tax and Exceptional items	1.67	1.43	6.81	3.20	10.66
5.	Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit / (Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(187.51)	(69.00)	1,493.35	72.65	452.46
6.	Equity Share Capital	15.84	15.84	15.84	15.84	15.84
7.	Other Equity				2,884.10	2,811.44
8.	Earnings per share of Rs 10 each					
	(a) Basic (Rs)	1.05	0.90	4.30	2.02	6.73
	(b) Diluted (Rs)	1.05	0.90	4.30	2.02	6.73
Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the quarter / Year ended 31st March, 2025, filed with the Calcutta Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29th May, 2025. The Report of the Statutory Auditors is being filed with the Calcutta Stock Exchange Limited.						
For and on behalf of the Board Sd/- Murari Lal Birmiwala Director DIN: 00642515						
Place: New Delhi Date: 29.05.2025						

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED				
CIN : L24241UP1981PLC005282 Regd. Office: 51/47, Naya Ganj, Kanpur- 208 001				
EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2025				(Rs./ Lacs)
Sl. No	Particulars	3 Months Ended 31.03.2025 Audited	Year Ended 31.03.2025 Audited	Corresponding 3 Months Ended 31.03.2024 Audited
1.	Total Income from operations	14.37	72.81	20.01
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	6.50	39.56	13.62
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	6.50	39.56	13.62
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.46)	29.60	0.55
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(3.46)	29.60	0.55
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	203.73	203.73	174.13
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs.10/- each) (For continuing and discontinuing operations) (Not Annualised) (In Rs.)	(0.41)	3.46	0.06

SOUTHERN INFOSYS CONSULTANTS LIMITED

(formerly known as Southern Infosys Limited)

Reg. office: 402-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001

Ph. :011-43045402 E-mail: southerninfosys@gmail.com Web: www.southerninfosysconsultants.com

CIN: L67120DL1994PLC059994

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 4TH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

Particulars	₹ In lakh)				₹ In lakh)			
	Standalone				Consolidated			
	Quarter Ended 31.03.25 (Audited)	Quarter Ended 31.12.24 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.24 (Audited)	Year Ended 31.03.25 (Audited)	Quarter Ended 31.03.25 (Audited)	Quarter Ended 31.12.24 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.24 (Audited)	Year Ended 31.03.25 (Audited)
Total income from operations (net)	501.23	609.88	842.83	1304.97	501.23	609.88	842.83	1,304.97
Net Profit/ (loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.54	25.84	21.60	45.61	13.54	25.84	21.60	45.61
Net Profit/ (loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.37	12.48	15.07	27.06	9.37	12.48	15.07	27.06
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	9.37	12.48	15.07	27.06	8.67	9.74	20.46	26.46
Equity Share Capital	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance sheet	-	-	-	-	-	-	-	-
Earnings Per share (of ₹ 10/- each) or continuing and discontinued operations								
Basic :	0.19	0.25	0.30	0.54	0.17	0.19	0.41	0.53
Diluted :	0.19	0.25	0.30	0.54	0.17	0.19	0.41	0.53

Note:

- The Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their Meeting held on 28th May 2025.
- The statutory auditors have carried out statutory audit of the above financial results for the 4th Quarter and Year ended 31.03.2025.
- The above is an extract of the detailed format of the standalone & consolidated audited financial results for the Quarter and year ended 31.03.2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on Stock Exchange website (www.bse.com) and Company's website (www.southerninfosysconsultants.com) which can be viewed by scanning the QR code.
- The above results are in compliance with Indian Accounting Standards (Ind As) notified under The Companies Act, 2013.

Southern Infosys Consultants Ltd.
Formerly known as Southern Infosys Limited


Sd/-
(Siddharth Sharma)

Director

DIN : 07401382

Place : New Delhi

Date : 28.05.2025

PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD.				
Registered Office : House No.4, Ambikagiri Nagar, Milan Path, R. G. Baruah Road, Guwahati - 781 024. CIN No.: L17124AS1987PLC002758 Email: secretarial@bosimi.com, Website : www.pragbosimi.com				
Statement of Audited Consolidated Financial Result for the period ended 31-03-2025				
Sr. No.	PARTICULARS	Quarter ended on		
		(₹ in Lakhs)		
		31-Mar-2025 (Audited)	31-Dec-2024 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	0.39	67.25	0.05
2	Profit/(Loss) before exceptional and tax items	(368.50)	(234.44)	(390.36)
3	Profit/(Loss) before extraordinary item and tax	(368.50)	(234.44)	(390.36)
4	Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	(368.50)	(234.44)	(390.36)
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	(368.50)	(234.44)	(390.36)
6	Total other Comprehensive Income for the period	(368.50)	(234.44)	(390.36)
7	Paid-up equity share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	7,729	7,729	7,729
8	Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year			
9	Earning Per Share (before extraordinary items) (of ₹10/- each)			
a)	BASIC EPS	(0.48)	(0.30)	(0.51)
b)	Diluted EPS	(0.48)	(0.30)	(0.51)
The above is an extract of the detailed format of Consolidated Audited Financial Results ended 31st March 2025 filed with the Stock Exchange/s under Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations, 2015. The full format of the unaudited results for the quarter ended 31st March 2025 is available on the Company website "www.pragbosimi.com" and on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com.				
				
For PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD. Sd/- RAKTIM KUMAR DAS Whole Time Director DIN NO.: 0515126				
Place : Guwahati Dated : 28-05-2025				



NAINITAL BANK

Branch - Ankur Heights, Civil Lines, Kiratpur Road, Bijnor,
Distt. Bijnor, UP-246701, Ph.-01342-263636

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

All the borrowers/guarantors/co-obligants mentioned herein below are notified that loan(s) availed by them from Nainital Bank, Ankur Heights, Civil Lines, Kiratpur Road, Bijnor, Distt. Bijnor, UP-246701 branch is/are NPA/s. The demand notice u/s 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 sent through Registered Post/Courier have been received/ returned undelivered. We indicate our intention of taking possession of secured securities whose brief are mentioned below as per section 13(4) of Act in case of their failure to pay the amount mentioned along with future interest and charges within 60 days.

Name & Address of Borrowers/Guarantors
<p>1. M/s Akshi Traders (Proprietorship Firm/Borrower Firm) Through its Proprietor Akhilesh Kumar Rajput S/o Yogesh Kumar Rajput Regd. office/principal place of Business: Ground floor, S R EDIFICS Building, Bairaj Road, Bijnor, Uttar Pradesh- 246701. 2. Akhilesh Kumar Rajput S/o Yogesh Kumar Rajput (Proprietor/Borrower), R/o Gram Mukeymup Dharm's Rajpal Singh (Guarantor), R/o 96,Gram Mukeymup Dharmsee, Bijnor, Uttar Pradesh-246701. 3. Krishna Kumar Kashyap S/o Suresh Chandra Kashyap (Guarantor), R/o Taimurpur Dipa, Bharat Vihar Colony, Bijnor Rural, Bijnor, Uttar Pradesh-246701.</p> <p>Issued Demand Notice dated 28.03.2025 for Rs. 19,77,024.02 (Rupees Nineteen Lakh Seventy Seven Thousand and Twenty Four & Paise Two Only as on 24.03.2025) (plus future interest & other expenses thereon with effect from 25.03.2025) less recovery, if any.</p> <p>Brief details of Property hypothecated/Mortgaged : All part & parcel of the three storied house property, situated at Vasundhara Vihar, Bijnor, (Islampurdas Outside Nagar Palika Limits and, Inside Chakkar Road), Pargana Bijnor, Tehsil and District Bijnor and measuring 126.11 sq. m. and total covered area of all three floors being 218.01 sq. m. Sale deed duly registered in the office of the Sub Registrar, (Sadar), Bijnor, in Book No. 1, 21ld No. 8088, on Page Nos. 165-200, at Serial No. 13680, on date 20.10.2015, in the name of Yogesh Kumar Rajput S/o Late Rajpal Singh. Boundaries (as per sale deed): North : Rasta 20ft wide, South: Baag of Mohsin etc., East: House of Chitralekha etc., West: House of Bhoore Singh.</p>

The borrowers/guarantors are advised to collect undelivered original notice(s) addressed to them from our **Ankur Heights, Civil Lines, Kiratpur Road, Bijnor, Distt. Bijnor, UP-246701** branch and pay the amount outstanding with interest and their costs within 60 days from the date of this publication to avoid further action under the Act.

Place: Bijnor, UP
Date : 30.05.2025
Authorized Officer

NORTHERN RAILWAY
CORRIGENDUM

Ref: i) Tender Notice No.18/2025-2026 dated 28.05.2025
ii) Tender No.77259027RGC Opening date 19.06.2025.

In reference to above, CORRIGENDUM in tender documents has been issued for price variation clause. All other terms and conditions remain unchanged.

The corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in.

Note: This is the First Corrigendum in above referred tender.

Dy.CMM/Sig-C
1604/2025



UGRO Capital Limited

4th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Road,
Kurla, Mumbai 400070

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE OF 15 DAYS FOR SALE OF IMMOVABLE ASSET(S) ("SECURED ASSET(S)") UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISIO TO RULE 8 AND 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Secured Asset(s) mortgaged / charged to **UGRO Capital Limited and Poonawalla Fincorp Limited ("Secured Creditor")**, the possession of which has been taken by the authorised officer of Secured Creditor, will be sold on "As is what is" and "As is where is" and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereon till the date of realization of amount, due to Secured Creditor from the Borrower(s) and Guarantor(s) mentioned herein below. The Reserve Price, Earnest Money deposit (EMD) and last date of EMD deposit is also mentioned herein below:

Details of Borrower(s)/ Guarantor(s)	Details of Demand Notice	Details of Auction	
1. R R Garments	Date of Notice: 22-08-2024	Reserve Price	Rs. 21,94,440/-
2. Rahul Jain		EMD	Rs. 21,94,470/-
3. Ritin Jain	Outstanding Amount Rs. 1,69,15,317/- as on 09-08-2024	Last date of EMD Deposit	19-06-2025
4. Khajaji Devi Jain		Date of Auction	20-06-2025
Loan Account Number: UGCLSN50000013910		Time of Auction	11 AM to 01 PM
		Incremental Value	Rs. 1,00,000/-

Description of Secured Asset(s): "All that piece and parcel of immovable property having built up property no. 1/X/5348 (part, measuring area 66 Sq.Yards i.e. 55.18 Sq.Meter, with complete terrace/roof rights, with the rights of upper construction upto last floor, out of Khasha No. 302, Khawat No. 56, Khatori No.172, situated at abadi street No. 02, old seelampur, Gandhi Nagar in the area of village Seelampur, Ilaga Shahdara, Delhi - 110031."

Please note that previous sale advertisement published at 24-05-2025 & 26-05-2025 & 27-05-2025 is recalled.
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in U GRO Capital Limited/Secured Creditor's website i.e. www.ugrocapital.com or contact the undersigned at authorised officer/ugrocapital@gmail.com

Date: Delhi
Place: 30.05.2025

Sd/-(Authorised Officer)
For UGRO Capital Limited

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN: L65910KL1992PPLC006623,
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.o. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

GOLD AUCTION NOTICE

The pledges, in specific and the public, in general, are hereby notified that public auction of the gold ornaments pledged in the below auctions is proposed to be conducted at the following branches on 16/06/2025 from 10.00 am onwards. We are auctioning gold ornaments defaulted customers who have failed to make payment of his/her loan amount despite being notified by registered letters. Unauctioned items shall be auctioned on any other days without further notice. Changes in venue or date (if any) will be displayed at auction centre and on website without any further notice.

List of pledges:-

ALLAHABAD, CIVIL LINES-ALLAHABAD, 125550730021084, PHULPUR ALLAHABAD, 137080700005315, 5316, 137080730020274, BALRAMPUR, TULSIPUR-BALRAMPUR, 137090700008109, 8136, BARABANKI, CIVIL LINES-BARABANKI, 134730700017049, 134730730013415, DEORIA, BHIKHAMPUR DEORIA, 138370730007419, FAIZABAD, FAIZABAD-U.P, 134170700022013, 134170730017638, FARRUKHABAD, FARRUKHABAD, 138390750000220, GONDA, GONDA, 136930730034826, 4856, BABINA ROAD, 133990700041004, RAPTI NAGAR PHASE I-GORAKHPUR, 134140700034907, HARDOI, CINEMA CHOURAHA-HARDOI, 134080730020031, 0032, RAILWAY GANJ-HARDOI, 134430700022043, KANPUR NAGAR, EXPRESS ROAD- KANPUR, 125850730012825, 2833, KOWAI NAGAR- KANPUR, 128340730028376, MAIN JUHI GAUSHAAL KANPUR, 133810730040053, 26970700000000, KANPUR- KANPUR, 126290730024628, VIKAS NAGAR-KANPUR, 128370780000061, KUSHI NAGAR, PADRONA, 137520730009584, 9777, AASHIYANA, 124520700038653, ALAMBAGH, 111940700040523, 1119407300044551, AMINABAD CIRCLE, 111960730027341, GAURIGANJ-UP, 135840700017997, GOMTINAGAR- LUCKNOW, 120400730034615, HARDOI ROAD LUCKNOW, 114040730020280, MAHANAGAR, LUCKNOW, 120390700027875, 120390730028843, 8844, 8856, RAJAJIPURAM- LUCKNOW, 126960700024274, THAKURGANJ, 128650700030729, 0747, 112860730029860, 112860750000367, VIKAS NAGAR LUCKNOW, 135020700021671, 1674, 135020730026877, MAHARAJAGANJ, MAHARAJAGANJ, 137070730069542, 9544, PRATAPGARH, PRATAPGARH-UP, 135770730014527, SAHARANPUR, COURT ROAD SAHARANPUR, 135400750000241, SAHRANPUR CENTER, 13751073003030276, 137510750000138, 0139, SANT KABIR NAGAR, KHALILABAD NEW, 138590700009469, 9474, SANT RAVIDAS NAGAR, BHADOHI, U.P, 135630700020098, 0117, 0129, SIDDHARTH NAGAR, NAUGAUR-UP, 137130700013114, 137130730012533, 2540, SITAPUR, MISRIKH, 137190700005120, 5129, SITAPUR, 1371607300303765, SULTANPUR, SULTANPUR, 1370807300400756, VARANASI, LAVHRABAI VARANASI, 119920700029205, MEHMOOD GANJ-VARANASI, 128710700025568, 5589, 5606, ORDERLY BAZAR, 124140700043006, 3023, 3026, 3040, 3057, 122410730061976, PRADE KOTHI- VARANASI, 132210700018770, 8771, 132210730019437, SIGRA-VARANASI, 131500700020689, 0696, SUNDERPUR-VARANASI, 132375070026566,

Persons wishing to participate in the above auction shall comply with the following:- Interested Bidders should submit Rs. 10,000/- as EMD (refundable to unsuccessful bidders) by way of Cash on the same day of auction. Bidders should carry valid ID card/PAN card. For more details please contact: 8089292353.

Authorised Officer
For Manappuram Finance Ltd

The image shows the IEC Education Limited logo at the top left, featuring the letters 'IEC' in a bold, sans-serif font with a stylized graphic of three curved lines to the right. Below the logo, the company name 'IEC EDUCATION LIMITED' is written in a large, bold, sans-serif font. Underneath the company name, the CIN number 'L74899DL1994PLC061053' is displayed. The registered office address is listed as 'E-578, FIRST FLOOR, GREATER KAILASH PART-II, NEW DELHI-110048'. The website 'WWW.IECGROUP.IN' and email 'CS@IECGROUP.IN' are also provided. A black horizontal bar separates this header from the main statement. The statement itself is in a bold, sans-serif font, reading: 'STATEMENT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025'. Below this, the text 'Dear Shareholders,' is followed by a paragraph stating that the Board of Directors, in a meeting on Thursday, May 29, 2025, approved the audited standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2025. It mentions that the financial results and limited review report have been uploaded on the company's website. A URL is provided: 'https://www.iecgroup.in/_files/ugd/2f596c_c30dd8e28f334740b47770a31c657041.pdf'. A QR code is shown below the URL, which likely links to the financial results. The statement concludes by saying that the financial results can also be accessed by scanning the QR code. At the bottom, it states 'For and on behalf of the Board of Directors of IEC Education Limited' followed by the signature 'Sd/- Sunil Kumar Director' and the DIN number '08463423'. The date 'Date: May 29, 2025' and place 'Place: New Delhi' are also included.

साउथर्न इंफोकंस्टलेंट लिमिटेड									
(पहले का नाम साउथर्न इंफोसिस लिमिटेड)									
पंजी0 कार्यालय: 402-ए, अरुणांचल बिल्डिंग, 19,बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001									
फोन: 011-43045402, ईमेल: southerninfosys@gmail.com, वेबसाइट: www.southerninfoconsultants.com									
CIN: L67120DL1994PLC059994									
31 मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही व वर्ष के लिए स्टैटडअलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणाम									
विवरण	स्टैटडअलोन				समेकित				वर्ष समाप्त 31.03.25 (अंकेक्षित)
	तिमाही समाप्त 31.03.25 (अंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 31.12.24 (अंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.24 (अंकेक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.25 (अंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.25 (अंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 31.12.24 (अंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.24 (अंकेक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.25 (अंकेक्षित)	
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	501.23	609.88	842.83	1304.97	501.23	609.88	842.83	1,304.97	
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि), (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों से पूर्व)	13.54	25.84	21.60	45.61	13.54	25.84	21.60	45.61	
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि), (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों के पश्चात)	9.37	12.48	15.07	27.06	9.37	12.48	15.07	27.06	
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर के बाद अवधि हेतु लाभ / हानि और कर के बाद अन्य व्यापक आय)	9.37	12.48	15.07	27.06	8.67	9.74	20.46	26.46	
इक्विटी शेयर पूंजी	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है	-	-	-	-	-	-	-	-	
आय प्रति शेयर (₹ 10/- प्रति) या जारी और बंद किए गए संभावान									
मूल:	0.19	0.25	0.30	0.54	0.17	0.19	0.41	0.53	
तरल:	0.19	0.25	0.30	0.54	0.17	0.19	0.41	0.53	
नोट:									
1. ऑडिट कमेटी द्वारा अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2025 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया।									
2. वैधानिक लेखा परीक्षकों में 31.03.2025 को समाप्त चौथी तिमाही व समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणाम की सांख्यिक लेखापरीक्षा की है।									
3. ऊपर दिए गए स्टैटडअलोन के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है और सभी के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ पारस्परिक 31.03.2025 को समाप्त तिमाही व समाप्त वर्ष के लिए समेकित अवधिगत वित्तीय परिणाम (यूरी निर्धारण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं): विनियमन 20(15) वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bse.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.southerninfoconsultants.com) पर उपलब्ध है, जिसे क्पुजार कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।									
4. उपरोक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिव्युक्ति भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के अनुपालन में हैं।									
साउथर्न इंफोकंस्टलेंट लिमिटेड के लिए पहले का नाम साउथर्न इंफोसिस लिमिटेड									
हस्ता /— सिद्धार्थ शर्मा निदेशक									
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 28.05.2025									



अचल संपत्तियों के वित्तराश्री ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना				
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (जहां इसमें इसके उपखण्ड "अधिनियम") के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में बैंडिज इन्फोएडवाइज हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में शामिल) (आईआईएफएल-एफएफएल) निम्नलिखित कार्यालय, सुप्रीम 38, एरुणांचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 (हिरणा, 122016 (हिरणा) तथा और राखा कार्यालय "दुबान" में - 178, प्रथम तल, सेक्टर-14 मेट्रो, एडवाइजरी ईक लिमिटेड के पास, रोडवेज रोड कोड-110001" के पास केंद्रस्थान अचल संपत्ति का विवरण। जम्मेक आईआईएफएल-एफएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एफए") ने, आईआईएफएल-एफएफएल की संपत्ति हेतु निम्नलिखित संपत्ति/यों का "जैसा है जहां है अथवा पूर्व जैसा है जो है आधार" पर विवरण करने के एफएफएल के साथ निम्नलिखित ऋण खाता /अनुसूच नंबर के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निमित्त सूचना के अनुपालन में उनका अधिनियम कर लिया था। विवरण जो है, वह अधोस्तारकर्ता द्वारा वेबसाइट पर: www.iiiflhome.com पर उपलब्ध है-नीलामी में के माध्यम से किया जाएगा।				
आवक्यता (और / सह-आवक्यता (और) / गारंटर (और) का नाम)	मौजूद सूचना तिथि एवं राशि	अचल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक अधिवास की तिथि	आरक्षित शुद्ध
1. श्री कौस्तुभ 2. श्रीमती सुजान (संयुक्त रूप से) आईएल 10366852)	20-बनवार्ड-2023 रु. 42,48,627/- (एकड़ और एक चौथाई हजार आठ सौ और दो मात्र)	खेवट संख्या 291, खाता संख्या 307 में से किला संख्या 127 / 5/1 में शामिल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो गोहाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, 131301 में स्थित है। क्षेत्रफल माप (गर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि-क्षेत्र, निर्माण-क्षेत्र, कारपेट-क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्र: 477.00, 413.00, 330.00	18-फरवरी-2025 27-मई-2025 तक कबला राशि रु. 5,99,020/- (रुपये पांच लाख अठारह हजार एक सौ उन्नीस हजार एक)	रु. 5,99,020/- (रुपये पांच लाख अठारह हजार एक सौ मात्र)
	बोली बुद्धि राशि रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)			व्यवसाय तिथि सत्राव (ईलामी) रु. 59,900/- (रुपये पचास हजार एक सौ मात्र)
संपत्ति के विवरण की तिथि		ईलामी की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि / सत्राव	
30-जून-2025 को 1100 बजे से -1400 बजे		02-जूनई-2025 को 5 बजे तक	04-जूनई-2025 को 1100 बजे से - 1300 बजे	
मुद्रास्थान का माध्यम: धारण मुद्राओं को ब्याज अधिनियम विधि द्वारा किया जाता है। मुद्रास्थान करने के लिये आपको https://www.iiiflhome.com पर विवरण करना होगा और मात्र संपत्ति / प्रतिभूत अधिनियम के अधिनियम के अनुसार संपत्ति का ब्याज कर देना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रश्न", धारा के अनुसार विवरण, केंद्रस्थान के खर्चों का हवाला दिया है। क्षेत्र मुद्रास्थान के लिये - ब्याज सौलिंग करें - https://www.iiiflhome.com >My Bid >Pay Balance Amount.				
विवरण एवं शर्तें :-				
1. ई-नीलामी में प्रतिभाषित करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.iiiflhome.com पर संपत्ति प्रवेश करने के लिए करेंगे और उन्हें सत्राव शुरू होने तक संपत्ति का विवरण कर देना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रश्न", धारा के अनुसार विवरण, केंद्रस्थान के खर्चों का हवाला दिया है। क्षेत्र मुद्रास्थान के लिये - ब्याज सौलिंग करें - https://www.iiiflhome.com >My Bid >Pay Balance Amount.				
2. बोलीदाताओं को अपने स्वतंत्र को, स्वतंत्र बोली बुद्धि राशि के अंतर्गत अधिकतम राशि के मुद्रा में बदलना होगा। यदि बोलीदाता के सम्मान समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदाता किया जाता है तो सम्मान समय 5 मिनटों के लिए रुक दे दिया जाएगा।				
3. सम्मान बोलीदाता को बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि (धारा का सम्मान करने के उपरान्त) एफए द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार द्वारा विवरण की अधिनियम विधि द्वारा की तिथि से 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। सम्मान जमा/तथा ब्याज भुगतान जो है, वह भुगतान के निमित्त प्रारूप के तहत किया जाएगा।				
4. क्षेत्र को संपत्ति से संबंधित सम्पत्ति को एवं सत्राव संपत्ति विवरण, तथा, दृष्टि मुद्रा, शुद्धों एवं किसी अन्य संपत्ति/विवरण विवरण अथवा अन्य संपत्ति/विवरण जैसे मात्र निमित्त कर, विवरण प्रश्न, भूमि एवं सम्पत्ति अन्य अधिनियम लागू, प्रश्नों का भुगतान करना होगा।				
5. क्षेत्र को संपत्ति की टीडीएर एफएफएल का भुगतान/विवरण राशि का भुगतान करना होगा तथा टीडीएर प्रमाणपत्र आईआईएफएल एफएफएल के पास प्रस्तुत करना होगा।				
6. बोलीदाताओं को समझ है कि वे ई-नीलामी विवरण करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
7. विवरण, सत्राव प्रारूप तथा ई-नीलामी पर अधिनियम अधिनियम के लिए सत्रावित्त बोलीदाताओं को ई. ई. सेवा प्रदाता से ई-नेट आईडी care@iiiflhome.com , सत्राव लेनदार नंबर रु. 1800 2672 499 पर संपत्ति कर सकते हैं।				
8. सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निविदा तथा अधिनियम बोली बुद्धि एवं संबंधित किसी भी प्रश्न/प्रश्नों के लिए आईआईएफएल एफएफएल को दोस ग्री नं. 1800 2672 499 पर संपत्ति से सत्राव प्रारूप 9.30 बजे से सत्राव शुरू होने तक संपत्ति का विवरण कर देना होगा। ई-नेट care@iiiflhome.com पर मत लिखें।				
9. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
10. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
11. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
12. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
13. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
14. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
15. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
16. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
17. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
18. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
19. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
20. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
21. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
22. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
23. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
24. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
25. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
26. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
27. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
28. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
29. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
30. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
31. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
32. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
33. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
34. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
35. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
36. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
37. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				
38. एफए द्वारा सत्राव सत्राव करवाएंगे। वे नाम देने के लिए अपने बोलीदाता जमा करने से पहले नीलामी विवरण के विवरण निमित्त एवं सत्राव नीलामी अधिनियम प्रारूप द्वारा वेबसाइट https://www.iiiflhome.com एवं https://www.iiifl.com/home-loans/properties-for-auction पर देखेंगे।				